



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 43] नई दिल्ली, अक्टूबर 19—अक्टूबर 25, 2008, शनिवार/आश्विन 27—कार्तिक 3, 1930
No. 43] NEW DELHI, OCTOBER 19—OCTOBER 25, 2008, SATURDAY/ASVINA 27—KARTIKA 3, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2008

सा. का. नि. 194.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रधान निजी सचिव के पद में भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (प्रधान निजी सचिव) समूह 'क' भर्ती नियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : इनमें की गई पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान इन नियमों में उपाखण्ड अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में यथा निर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहंताएं और इनसे संबद्ध अन्य मामलों अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में यथा निर्दिष्ट होंगे।

4. निरहंता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति, जिसकी पत्नी या पति जीवित होते हुए, से विवाह किया हो, या

(ख) जिसने अपनी पत्नी या पति जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया हो।

उपर्युक्त पद में नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार की यह संभावना हो कि मूल विवाह उक्त व्यक्ति या अन्य पक्ष के संबंध में लागू प्रयोग विधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, इस नियम के प्रचलन से छूट दे सकती है।

5. शिक्षित करने की शक्ति : जहां केवल सरकार की यह मता हो कि ऐसा करना आवश्यक या मंजूर है, कार्यों को लिखित में लेखबद्ध करने और मंत्रालय सेवा आयोग के परामर्श में अग्रदूत हुए, व्यक्तियों की किसी श्रेणी या प्रभाग के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिक्षित न हो सकता है।

6. कार्यालय : इन नियमों का, केन्द्रीय सरकार द्वारा समझ-समझ पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातों, प्रारम्भ में भर्ती और अन्य विशेष प्रयोगों के लिए दिए जाने वाले आश्रयों, भवन, मकानों से छूट और अन्य अपेक्षित विचारों पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद्धति का यह नियम 14	क्या केन्द्रीय शिक्षित सेवा (ऐशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अन्तर्गत सेवा में जोड़े गए वर्गों का लाभ प्रयोज्य है
1	2	3	4	5	6
प्रधान निजी सचिव	1* (2008) कार्यभार के आधार पर परिचालन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राज्यपाल अनुसन्धानीय	10,000-325- 15,200 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सोचे भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा		सोचे भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षणिक और अन्य अहंताएं		क्या सोचे भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अहंताएं और आयु पदोन्नति के प्रकारों में लागू होगी	
7			8		9
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
-------------------------------	---	---

10	11	12
----	----	----

पदोन्नत के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति द्वारा (पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति : 1. केन्द्र सरकार के अधिकारी :
------------------------	---	---

(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 7,500-12,000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वरिष्ठ निजी सचिव के ग्रेड में छः वर्षों की सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 6,500-10,500 रुपए (निजी सचिव) या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्षों की संयुक्त सेवा की हो;

(ख) 7,500-12,000 रुपए के वेतनमान में विभागीय वरिष्ठ निजी सचिव जिन्होंने उस ग्रेड में छः वर्षों की सेवा की हो, जिसके नहीं होने पर वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव (6,500-10,500 रुपए) के ग्रेडों में आठ वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा करने वाले विभागीय वरिष्ठ निजी सचिव पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद में नियुक्ति के लिए उसे चुन लिया जाता है तो वह पद पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

टिप्पणी :— फोडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति के सीधे क्रम में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचारण के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचारण के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति को अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग ब्राह्म पद में प्रतिनियुक्ति को अवधि शामिल है, सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रयोजन सम्मति है, तो इसका गठन

भारी को ये परिस्थितियों जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है

13

14

सागू नहीं होता

गठ बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 13012/3/2007-अकादमी टेम्प्लेट]

संदीप मुखर्जी, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 3rd October, 2008

G.S.R. 194.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Private Secretary in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, namely :

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (Principal Private Secretary) Group 'A' Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Principal Private Secretary	1* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' (Gazetted non-ministrial)	Rs. 10000-325-15200	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	
7		8		9	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	
Period of probation, if any		Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	
10		11		12	
Two years for promotees		By composite method (Promotion/Deputation)		Promotion/Deputation : 1. Officers under the Central Government : (a)(i) holding analogous post in the Stenographer's cadre on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years' service in the Senior Private Secretary Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 7500-12000 or equivalent in the parent cadre/department; or	

10	11	12
		<p>(a) with eight years' combined service rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 (Private Secretary) or equivalent in the parent cadre department.</p> <p>(b) The departmental Senior Private Secretary in the pay scale of Rs. 7500-12000 with six years' regular service in the grade falling which departmental Senior Private Secretary with eight years' combined regular service in the grades of Senior Private Secretary and Private Secretary (Rs. 6500-10500) shall also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p>Note : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
13	14	
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up the post	

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2008

सा. का. नि. 195.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (कनिष्ठ और वरिष्ठ नक्शानवीस सहायक) भर्ती नियमावली, 1977, जहां तक कि वे कनिष्ठ नक्शानवीस सहायक और अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (ड्राफ्ट्समैन) भर्ती नियमावली, 1977 से संबंधित हैं, इस प्रकार के अतिक्रमण से पूर्ण किए गए कार्य अथवा लोप किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों को भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण कनिष्ठ नक्शानवीस सहायक और ड्राफ्ट्समैन भर्ती नियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं, होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं, होंगे।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार, यदि इससे संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू नैतिकता विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जिस मामले में केन्द्र सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या सामयिक है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा जो आरक्षणों, आयु-सीमा को छूट और अन्य रियायतों जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदत्त किया जाना अपेक्षित हो, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार दुष्प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद	केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के तहत सेवा के बड़े हुए वर्षों का लाभ ग्राह्य है
1	2	3	4	5	6
1. कनिष्ठ नक्शानवीस सहायक	16* (2008) कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	4500-100-7000 रुपए	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या पदोन्नतियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी
----------------------------	--	--

7	8	9
18 से 27 वर्ष। (केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अर्हताओं अथवा आदेशों के अनुसार सम्मान्य उम्मीदवारों के मामलों में 40 वर्ष)। टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग तथा ति.प्र. के बाहोली तथा म्योरि जिले और चम्पारन जिले का पॉर्ण उप प्रभाग, अ.नि.द्वी.स. तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी।)	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में एम. ए.। बोर्डचीस : (i) नक़्कालगोली में डिप्लोमा। (ii) माफ़ीचत्र चार्ज में दैनिक अभ्यास तथा अनुभव।	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की प्रणाली - क्या भर्ती सीधी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन अथवा या इनमें तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरा जाने वाली रिक्तियों का प्रतिफल	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की जा में वे श्रेणियाँ जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा
------------------------------	--	--

10	11	12
दो वर्ष	50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : डाफ़्टरशिप (4000-6000 रु.) ग्रेड में 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति सम्मान है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
---	---

13	14
समूह 'ब' विभागीय पदोन्नति समिति में (प्रोन्नति या नियुक्ति करने के लिए) शामिल लोग :	लागू नहीं
(क) मुख्य मंडा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मंडा और पूर्व उपयोग सर्वेक्षण (एम एल यू एस आई)।	—अध्यक्ष
(ख) एक मंडा सर्वेक्षण अधिकारी (एस एस ओ) जिसे एनएचएस प्रभाग द्वारा नामित किया जाना है।	—सदस्य
(ग) एक नक्काशगोश अधिकारी जिसे एनएएस प्रभाग द्वारा नामित किया जाना है।	—सदस्य
(घ) उप सचिव अथवा अवर सचिव, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग।	—सदस्य

1	2	3	4	5	6
2. ड्राफ्ट्समैन	23* (2008) *कार्यभार पर निर्भर करते हुए परिवर्तन के अधीन।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं

7	8	9
18 से 27 वर्ष। (केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों के मामलों में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामलों में 45 वर्ष तक की छूट)। टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने की अंतिम तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य का लद्दाख प्रभाग तथा हि.प्र. के लाहौल तथा स्पीति जिले और चम्पा जिले का पांगी उप प्रभाग, अं.नि.डी.स. तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी।)	अनिवार्य : किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में दो वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष तथा किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या इसके समकक्ष। वांछनीय : नियमित ट्रेसिंग तथा मानचित्र निरूपण में अभ्यास तथा अनुभव वांछनीय है।	लागू नहीं होता

10	11	12
दो वर्ष	सौधी भर्ती	लागू नहीं

13	14
विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) :	लागू नहीं
(क) मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एस एल यू एस आई) —अध्यक्ष	
(ख) वरिष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एस एल यू एस आई) —सदस्य	
(ग) अवर सचिव, प्राकृतिक संसाधन प्रभाग —सदस्य	
(घ) प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एस एल यू एस आई) —सदस्य	

[फा. सं. 1-4/2006-एन आर एम-II]

श्रीमती कैलाश प्रसाद, अवर सचिव (एन आर एम)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 16th October, 2008

G.S.R. 195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Junior and Senior Cartographic Assistant) Recruitment Rules, 1977, in so far as they relate to the post of Junior Cartographic Assistant and the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Draftsman) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Junior Cartographic Assistant and Draftsman) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 6 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are no other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of the posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Junior Cartographic Assistant	16* (2008) * Subject to variation dependent on	General Central Service Group 'X' Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 4500- 100-7000	Selection	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
7	8	9
18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim and Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and the Union Territory of Lakshadweep)	Essential : Master degree in Geography from a recognised University. Desirable : (i) Diploma in Cartography (ii) Practice and experience in routine cartographic work.	Not applicable
Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
10	11	12
Two years	50% by promotion failing which by direct recruitment and 50% by direct recruitment	Promotion : Draftsman in the scale of pay of Rs. 4000-6000 with a minimum five years regular service in the grade.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	
13	14	
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (a) Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman (b) One Soil Survey Officer to be nominated by the Natural Resources Management Division —Member (c) One Cartographic Officer to be nominated by the Natural Resources Management Division —Member (d) Deputy Secretary or Under Secretary of Natural Resources Management Division —Member	Not applicable	

1	2	3	4	5	6
2. Draftsman	231 (2008) (* Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "X" Non-Ministerial, Non-Gazetted	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable
7	8	9			
Between 15 and 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 years. In case of general candidates upto 45 years and in case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The closing date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Jammu and Kashmir, Division of Jammu and Kashmir State, Ladakh and Spiti district and Pangong sub-division of Leh district of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and the Union Territory of Lakshadweep)	Essential : Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board and two years Diploma in Draftsmanship or equivalent from a recognised Institute. Desirable : Practice and experience of routine tracing and map preparation is desirable.	Not applicable			
10	11	12			
Two years	Direct recruitment	Not applicable			
13	14				
Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—	Not applicable				
(a) Chief Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India —Chairman					
(b) Senior Soil Survey Officer of Soil and Land Use Survey of India —Member					
(c) Under Secretary of Natural Resources Management Division —Member					
(d) Administrative Officer of Soil and Land Use Survey of India —Member					

(File No. 1-4, 2006-NRM-41)

Smt. KAILASHI PRASAD, Under Secy. (NRM)